



# HB ESTATE DEVELOPERS LTD.

Regd. Office : Plot No .31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana)  
Ph. : 0124-4675500, Fax : 0124-4370985, E-mail : corporate@hbestate.com  
Website : www.hbestate.com, CIN No. L99999HR1994PLC034146

## LISTING CENTRE

June 29, 2019

The Listing Department  
Bombay Stock Exchange Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort  
Mumbai – 400001

Company Code: 532334

**Sub: - Copies of Newspaper Advertisement**  
**Compulsory Transfer of Equity Shares of the Company to the IEPF Authority**

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed copies of newspaper advertisement duly published by the Company in Business Standard (English & Hindi Edition) on 29<sup>th</sup> June, 2019 in respect of compulsory transfer of Equity Shares of the Company to DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

The above may please be treated as compliance of Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Para A of Part A of Schedule III said Regulations.

Copies of the said advertisements are also available on the website of the Company, [www.hbestate.com](http://www.hbestate.com).

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours truly,  
For HB Estate Developers Limited

*Radhika*

**RADHIKA KHURANA**  
**(Company Secretary & Compliance Officer)**

Encl: As above



**PUNJAB STATE POWER CORPORATION LIMITED**  
 GURU HARGOBIND THERMAL PLANT, LEHRA  
 MOHABBAT DISTT. BATHINDA (PUNJAB) - 151111  
 e-tendering website- <https://pspcl.abeprocure.com>

**NOTICE INVITING TENDER (Through E-Tendering)**

Tender Enquiry No.: 97/GHTP/MM-II/CS-48(VI) Dated: 27-06-2019  
 E-tenders are invited from reputed and registered firms/contractors for the following work:-

**SHORT DESCRIPTION:** AMC for Routine, Preventive and Break Down Maintenance (Mechanical Works) of Complete Conveyor System of CHP Stage-I & II of GHTP, Lehra Mohabat as per detail in Tender Specifications.

**EMD:** @2% of tender value (minimum Rs. 5000/-)  
 Last Date & Time for bid submission: 01-08-2019 upto 11:30 hrs.  
 Date & Time of opening of Fee stage bid : 01-08-2019 at 12:00 hrs.  
 Date & Time of opening of Reverse auctioning: 06-08-2019 at 13:00 hrs  
 Detailed NIT and tender specifications can only be downloaded from PSPCL website <https://pspcl.abeprocure.com> from dated 01-07-2019 onwards.

**Note:**

- The prospective bidders can obtain clarification regarding tender specifications from this office For registration of digital signatures and uploading of tender, information may be sought from M/s E-procure Technologies Ltd., Contact No. +91-(79)-40016866/40/38/18/21.
- It is informed that in case the tender process is not completed due to any reason no corrigendum will be published in newspapers. Detail regarding corrigendum may be seen on PSPCL official website i.e. <https://pspcl.in>.

Dy. Chief Engineer

GHTP - 35/19 Mechanical Mtc. Circle-II, O&M,  
 R.O.No.- C6017 GHTP, PSPCL, Lehra Mohabbat Distt. Bathinda (Pb.)-151111.

and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday July 20, 2019 to Thursday, July 25, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Also, notice is hereby given that the record date for the purpose of payment of dividend on equity shares for the year ended March 31, 2019 is 19th July, 2019. Accordingly the dividend of Rs. 6/- per equity share as recommended by the Board, if approved at the Annual General Meeting, would be paid to those members whose name appears on the Register of Members at the end of the day on 19th July, 2019.

For Cosmo Films Limited

Place: New Delhi  
 Date: 28th June, 2019

Sd/  
 Jyoti Dixi  
 Company Secretary



CIN No.: L72900MH2000PLC123841

Regd. Office: Aptech House, A-85, M.I.D.C., Marol Andheri (East), Mumbai - 400 09  
 Contact No. : 022-68282300 Fax No. : 022-68282399

Email : [info@aptech.ac.in](mailto:info@aptech.ac.in) Website: [www.aptech-worldwide.com](http://www.aptech-worldwide.com)

**NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that:

- The Nineteenth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 22nd July, 2019 at "Kamalayan Bajaj Hall", Bajaj Bhawan, Group Floor, Jammalal Bajaj Marg, 226, Nariman Point, Mumbai-400 021 at 4.00 p.m. to transact the business as set out in the AGM Notice. Copy of the Annual Report of 2018-19, inter-alia, containing the Notice of 19th AGM, Directors' Report, Auditors' Report, Standalone and Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended March 31, 2019 and Attendance Slip & Proxy Form, has been sent on 28th June, 2019 by electronic mode to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants (DP) for communication purposes. Physical copy of the said Annual Report will be supplied to members, as and when requested. For Members, who have not registered their e-mail addresses, physical copy of the said Annual Report has been dispatched on 28th June, 2019 by permitted mode. In case of non-receipt of the Annual Report by any member, a copy of the same can be obtained by writing to the Company at [investors\\_relations@aptech.ac.in](mailto:investors_relations@aptech.ac.in) or by downloading it from the Company's website link <https://www.aptech-worldwide.com/download/investorrelations-financials/AnnualReport-Aptech-2018-19.pdf>
- It is hereby informed that:
  - The members may cast their vote by electronic means for all the items of business as set out in the Notice convening 19th AGM, through remote e-voting services provided by Karvy Fintech Private Limited ("Karvy").
  - The remote e-voting period commences on Thursday, 18th July, 2019 from 9.00 a.m. and ends on Sunday, 21st July, 2019 at 5.00 p.m.
  - Members holding shares in physical and in dematerialized form, as on cut-off date i.e. 15th July, 2019 may cast their vote electronically.
  - Any person who acquires shares and become a member of the Company after the date of dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date may obtain user ID and password by sending a letter to the Registrar and Share Transfer Agent viz, Karvy Fintech Pvt Ltd, Karvy Selenium Tower B Plot number 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032 or by sending an email to [inward.ris@karvy.com](mailto:inward.ris@karvy.com). However, if a member is already registered with Karvy for remote e-voting, he/she can use the existing login user id and password for casting the vote.
- It is informed that:
  - the remote e-voting module shall be disabled by Karvy for voting after the end of remote e-voting period
  - the Company shall provide the facility for e-voting/Ballot at the AGM for those members who shall be present at the AGM but have not casted their votes by availing the remote e-voting facility
  - A member can participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the Meeting
  - A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on the cut-off date i.e. Monday, 15th July, 2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.
  - Notice of AGM is available on the Company's website at [www.aptech-worldwide.com](http://www.aptech-worldwide.com) and also on Karvy's website at <https://evoting.karvy.com>
- In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) for members and 'e-voting user manual' available in the Downloads section of website of Karvy <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. Anil Dalvi, Manager at Karvy 040-6716 2222/67161631, E-mail ID : [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) or at their free number: 1-800-3454001

By order of the Board of Directors

Place : Mumbai  
 Date : 29th June, 2019

Ketan S  
 Company Secretary

**HB ESTATE DEVELOPERS LIMITED**

CIN: L99999HR1994PLC034146

Registered Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area,  
 Sector 32, Gurugram-122001, Haryana

Ph. : + 91-124-4675500, Fax No. : + 91-124-4370985

E-mail : [corporate@hbestate.com](mailto:corporate@hbestate.com), Website : [www.hbestate.com](http://www.hbestate.com)

**NOTICE TO SHAREHOLDERS**

**COMPULSORY TRANSFER OF EQUITY SHARES TO DEMAT ACCOUNT OF THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY**

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of "Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016" as amended from time to time by the Ministry of Corporate Affairs ("the said Rules").

Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the said Rules provides for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more to the Demat Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

The Company has communicated individually the concerned Shareholders that all Shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by them for seven consecutive years from the Financial Year 2011-12 onwards shall be transferred to Demat Account of the IEPF Authority.

The Shareholders who hold Shares in physical form may please note that the Company would be issuing new Share Certificate(s) in lieu of the Original Share Certificate(s) held by them for the purpose of conversion into DEMAT form and subsequent transfer to DEMAT Account of the IEPF Authority. Upon such issue, the Original Share Certificate(s) issued to such Shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The Shareholders who hold Shares in Demat form may also note that their Shares shall be transferred by the Company to DEMAT Account of the IEPF Authority by way of Corporate Action through the respective Depository.

The Company has uploaded complete details of such Shares on its website, [www.hbestate.com](http://www.hbestate.com) which shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new Share Certificate(s) by the Company for the purpose of transfer to DEMAT Account of IEPF Authority.

Any further Dividend on such Shares shall be credited to the IEPF Account. Shareholders may further note that upon credit of such Shares to the IEPF Authority, no claim shall lie against the Company in respect of the Unclaimed Dividend amount and Shares transferred to the IEPF Authority. However, Shareholders may claim back their Unclaimed Dividend and Shares from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the IEPF Rules. The procedure for claiming the same is available at [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) and [www.hbestate.com](http://www.hbestate.com)

The Shareholders may claim their Unpaid Dividend by making an application to RCMC Share Registry Pvt. Ltd., Registrar and Transfer Agents of the Company on or before 15th October, 2019. In case the Company does not receive any communication from the concerned Shareholders, the Company shall transfer their Shares to the DEMAT Account of IEPF Authority in order to comply with the requirements set out in the said Rules.

In case of any queries, the shareholders may contact RCMC Share Registry Pvt. Ltd., Mr. Ravinder Dua, Ph: 011-26387320; E-mail: [rdua@rcmdlh.com](mailto:rdua@rcmdlh.com) or Mrs. Radhika Khurana, Company Secretary, Ph: 0124-4675500; E-mail: [corporate@hbestate.com](mailto:corporate@hbestate.com)

For HB Estate Developers Limited  
 Sd/

RADHIKA KHURANA

(Company Secretary)

M. No.: A-32557

Date : 28.06.2019

Place : Gurugram



## हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 34, कम्यूनिटी सेंटर, बसंत लोक,  
बसंत विहार, नई दिल्ली-110 057

CIN: L35911DL1984PLC017354 फोन: 011-46044100 फैक्स: 011-26143321  
ईमेल: secretarialho@heromotocorp.com, वेबसाइट: www.heromotocorp.com

### सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 व अन्य लागू विनियमों के साथ पठित विनियम 29 के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडलोन एवं कंसोलिडेटेड अर्न्कक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने के साथ-साथ अनुमोदित के लिए मंगलवार, 30 जुलाई, 2019 को आयोजित की जाएगी।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.heromotocorp.com](http://www.heromotocorp.com) और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) व [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध है।

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के लिए  
हस्ता./-  
नीरजा शर्मा  
कंपनी सचिव एवं  
मुख्य अनुपालन अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28 जून, 2019

## HB एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड

CIN: L99999HR1994PLC034146

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया,  
सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा

फोन : +91-124-4675500, फैक्स नं. : +91-124-4370985

ई-मेल : corporate@hbestate.com, वेबसाइट : www.hbestate.com

### शेयरधारकों को सूचना

इविटी शेयरों का निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि  
(आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में अनिवार्य अंतरण

यह सूचना 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा समय समय पर संशोधित, ('उक्त नियमावली') के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित उक्त नियमावली में उन सभी शेयरों का अंतरण निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में करने का प्रावधान किया गया है, जिनके लामांश का भुगतान सात या अधिक लगातार वर्षों से नहीं किया गया है अथवा जिसकी मांग नहीं की गई है।

कम्पनी उन संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दे चुकी है कि वे सभी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2011-12 से सात लगातार वर्षों से लामांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा जिसकी मांग नहीं की गई है, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे।

जिन शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया नोट करें कि कम्पनी उन शेयरों को डीमैट रूप में परिवर्तित करने के लिए मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा उसके बाद वे आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। ऐसे निर्गमन पर, इन शेयरधारकों को जारी किए गए मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे और अपराक्रम्य माने जाएंगे। जिन शेयरधारकों के पास शेयर डीमैट रूप में हैं, वे भी नोट करें कि उनके शेयर कम्पनी द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से कार्पोरेट कार्यवाही द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाएंगे।

कम्पनी इन शेयरों का पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट [www.hbestate.com](http://www.hbestate.com) पर अपलोड कर चुकी है, जो आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयर अंतरण के प्रयोजन हेतु कम्पनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने के संबंध में यथेष्ट सूचना मानी जाएगी।

इन शेयरों पर कोई भी अतिरिक्त लामांश आईईपीएफ खाते में क्रेडिट किया जाएगा। शेयरधारक आगे नोट करें कि इन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को क्रेडिट किए जाने पर, मांगी नहीं गई लामांश राशि तथा आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए गए शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। तथापि शेयरधारक मांगी नहीं गई लामांश राशि तथा आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए गए शेयरों की वापसी की मांग आईईपीएफ प्राधिकरण से, आईईपीएफ नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन द्वारा कर सकते हैं। उक्त वापसी की मांग हेतु प्रक्रिया [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) तथा [www.hbestate.com](http://www.hbestate.com) पर उपलब्ध है।

शेयरधारक, अपनी अवैतनिक लामांश राशि की मांग कम्पनी अथवा आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि., कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को 15 अक्टूबर, 2019 तक अथवा पहले आवेदन देकर कर सकते हैं। यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, कम्पनी उक्त नियमावली में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन की दृष्टि से, उक्त नियमावली में उक्त बद्ध प्रक्रिया के अनुसार शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर देगी।

यदि शेयरधारकों को कोई सवाल है, कृपया आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि., श्री रवीन्द्र दुआ, फोन नंबर 011-26387320; ई-मेल [rdua@rcmdehli.com](mailto:rdua@rcmdehli.com) अथवा श्रीमती राधिका खुराना, कम्पनी सचिव, फोन: 0124-4675500, ई-मेल : [corporate@hbestate.com](mailto:corporate@hbestate.com) से सम्पर्क करें।

कृते एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड

हस्ता./-

राधिका खुराना

(कम्पनी सचिव)

M. No.: A-32557

तिथि : 28.06.2019

स्थान : गुरुग्राम



STATE BANK OF INDIA Stressed Assets Recovery Branch  
23, Najafgarh Road, New Delhi-110015,  
Tel: 011-25419177, 25412977, E-mail : [sbi.05169@sbi.co.in](mailto:sbi.05169@sbi.co.in)

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public in general and the Borrower (s)/ Guarantor(s) whose

## पंजाब नैशनल बैंक

punjab national bank

... श्रम से का प्रतीक!

... the name you can BANK UPON

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, प्र.का. 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-11000

दूरभाष-011-23311452 ई-मेल: [itdhw@pnb.co.in](mailto:itdhw@pnb.co.in)

### निविदा सूचना

पंजाब नैशनल बैंक, पात्र बोलीदाताओं से "केंद्रीयकृत प्रॉक्सी सर्वर की आपूर्ति स्थापना और रखरखाव के लिए आरएफपी" हेतु ऑनलाइन बोली (तकनीकी ए वाणिज्यिक दोनों) आमंत्रित करता है।

इच्छुक बोलीदाता विस्तृत आरएफपी दस्तावेज हमारी ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट <https://etender.pnbnet.in> अथवा <https://www.pnbindia.in> पर डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर एवं कूटलेखन दोनों) व प्रयोग करते हुए हमारी ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन बिड जमा कराना अनिवार्य है। ऑनलाइन बिड तैयार करने और हैश जमा करने की अंतिम तिथि 19.07.2019 को 1600 बजे तक और बिड जमा करने की अंतिम तिथि 20.7.2019 को 1400 बजे तक है।

आरएफपी से संबंधित भविष्य की सभी जानकारीयाँ हमारी वेबसाइट <https://etender.pnbnet.in> और <https://www.pnbindia.in> पर अपलोड की जाएँगी।

सहायक महाप्रबंधक

फॉर्म नं.0. एनसीएलटी. 3ए

विकासन विवरणत्मक याचिका

(राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नियम, 2016 के नियम 35 के अनुसार)

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के सम्म, प्रधान पीठ, नई दिल्ली

कम्पनी याचिका सं.0. सीए-27 (पीबी)/2019

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के मामलों में

मिलाप न्यूज कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं. 1) और एमजेपी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं. 2) के साथ गुड मॉनिंग इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरी कम्पनी) उनके सम्बंधित शेयरधारकों और ऋणदाताओं के साथ समामेलन की योजना के मामले में

एमजेपी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 2 प्लोर, 6 ईस्टर्न एवेन्यू, महाराजी बाग, नई दिल्ली-110065 में है।

हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं.0.

### याचिका की सुनवाई की सूचना

मिलाप न्यूज कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं. 1) और एमजेपी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी नं. 2) के साथ गुड मॉनिंग इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कम्पनी) उनके सम्बंधित शेयरधारकों और ऋणदाताओं के साथ समामेलन की योजना के लिए मंजूरी/अनुमोदन हेतु, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के अंतर्गत एक याचिका याचिकाकर्ता कम्पनियों द्वारा संयुक्त रूप से 24 जनवरी, 2019 को प्रस्तुत की गई थी और कथित याचिका 10 जुलाई 2019 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के सम्म सुनवाई हेतु निर्धारित बं गई है।

कोई व्यक्ति उपरोक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध हेतु इच्छुक है तो वह अपनी इच्छा स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के द्वारा हस्ताक्षरित अपने नाम तथा पते के साथ यह सूचना, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को प्रेषित करे, जो कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पते नं.0. बी-001, प्रोस्पेक्टिव टॉवर, सिक्का कार्मिक ग्रीन, सेक्टर-78, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201307 के पास याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पहले पहुंचनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को याचिका पर आपत्ति है तो आपत्ति के कारणों के साथ शपथपत्र ऐसी सूचना के साथ संलग्न होनी चाहिए। याचिका की प्रति चाह-वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर इसे अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकता है।

दिनांक: 29 जून, 2019

स्थान: नई दिल्ली

हस्ता./-

डी.के. पोद्दा

याचिकाकर्ता कम्पनी के लिए अधिवक्ता

प्लेट नं.0. बी-001, प्रोस्पेक्टिव टॉवर, सिक्का कार्मिक ग्रीन, सेक्टर-78

नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201307

### परिशिष्ट IV

देखें नियम 8(1)

कम्पनी सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्कोरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एम्प्लोमेंट ऑफ सिक्कोरिटी इंस्ट्रेट एण्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्कोरिटी इंस्ट्रेट (एम्प्लोमेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार परदिप माधुर प्रॉपर्टी इंटर सीएच.करतार फिलींग स्टेशन, करतार सिंह, संधिव, रेनु और कांता को 13.03.2019 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHEDMT00429054 की राशि रु.78,75,150/- (रुए अठहत्तर लाख पचहत्तर हजार)